



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]  
No. 10]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 2007/पौष 25, 1928  
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 2007/PAUSA 25, 1928

गृह मंत्रालय  
संशोधन

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2007

सं. I-45023/2/2006-कार्मिक-II.—केन्द्रीय पुलिस बलों (सी.पी.एफ.) अर्थात् सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.), भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) तथा सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) में सहायक कमांडेंट की रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से 2006 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिता परीक्षा की नियमावली, जिसे 6 मई, 2006 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित किया गया, में किए गए संशोधन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

(i) नियम 4 को ऐसे पढ़ें:-

“4. इस परीक्षा के लिए पुरुष तथा महिला उम्मीदवार दोनों ही पात्र होंगे किन्तु महिला उम्मीदवारों को केवल के.रि.पु. बल तथा के.औ.सु. बल में नियुक्ति के लिए ही विचार किया जाएगा।”

(ii) नियम 15 के पैरा 8 को ऐसे पढ़ें :-

“साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बनाई गई उम्मीदवारों की लघु सूची सहित अन्तिम रूप से साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बनाई गई लघु सूची हेतु उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन प्रपत्र जारी किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ बल की वरीयताएं निर्दिष्ट करने को कहा जाएगा। चूंकि महिला उम्मीदवार केवल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए ही पात्र हैं, उन्हें केवल इन्हीं दो बलों के लिए ही अपनी वरीयता निर्दिष्ट करना अपेक्षित होगा।”

(iii) नियम 20 को ऐसे पढ़ें :-

“20. अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के संबंध में सेवा आर्बटन गृह मंत्रालय द्वारा योग्यता तथा बलों के लिए वरीयताओं के आधार पर, जैसे उम्मीदवारों ने विस्तृत आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट किया है, किया जाएगा। चूंकि महिला उम्मीदवार केवल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नियुक्ति के लिए ही पात्र हैं, उन्हें अपनी वरीयता केवल इन्हीं दो बलों के लिए ही निर्दिष्ट करनी होगी।”

मनोज अग्रवाल, निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

AMENDMENT

New Delhi, the 15th January, 2007

No. I-45023/2/2006-Pers. II.—The amendments to the Rules for a competitive examination, conducted by Union Public Service Commission in 2006 for the purpose of filling up vacancies of Assistant Commandants in Central Police

Forces (CPFs) viz. BSF, CRPF, ITBP, CISF and SSB, published in Part I, Section 1 of the Extraordinary Gazette of India dated 6th May, 2006 are published for general information :

(i) Rule 4 may be read as under :—

“4. Both Male and Female candidates will be eligible for this examination, but Female candidates will be considered for appointment to CRPF and CISF only.”

(ii) Para 8 of Rule 15 may be read as under :—

“Candidates who are short-listed for Interview/Personality Test, including those short-listed for Interview/Personality Test prqvisionally will be issued a Detailed Application Form (DAF) in which among other things, they will be required to indicate their preferences of Forces. As female candidates are eligible for appointment to CRPF and CISF only, they will be required to indicate their preferences for these two Forces only.”

(iii) Rule 20 may be read as under :—

“20. Service allocation in respect of finally selected candidates will be made by the Ministry of Home Affairs on the basis of merit and preferences for Forces to be indicated by the candidates in the Detailed Application Form (DAF). As Female candidates will be eligible for appointment to CRPF and CISF only, they will have to indicate their preference for these two Forces only.”

MANOJ AGGARWAL, Director (Pers.)